



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फ़ैक्स :- 2226806, फ़ोन :- 0151-2226902, 0151-2226905

E-mail:- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site www.bikanermc.org

क्रमांक/स्व. /2021/ 5570-5574

05 जुलाई, 2021

ई-टेण्डरिंग निविदा सूचना सं. 04 (2021-22)

बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में बरसात के मौसम में नालों की सफाई हेतु एक प्रोकलोन गशीन (Two Ten or Above capacity) (9 मीटर बूज की) मय चालक, ईंधन सहित प्रतिदिन आपूर्ति अनुबंध पर कार्यदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के लिए उपलब्ध कराये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्त निगम की वेबसाइट www.bikanermc.org एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती हैं। निविदाएं वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड एवं अपलोड हेतु उपलब्ध हैं। निविदा डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक 8-7-2021, निविदा दर अपलोड करने की अंतिम दिनांक 8-7-2021 तकनिकी बिड खोलने की दिनांक 09-07-2021 हैं।
कार्य की अनुमानित लागत :- 10,00,000/-

आयुक्त

नगर निगम बीकानेर

05 जुलाई, 2021

क्रमांक/स्व. /2021/ 5570-5574

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् निदेशक जनसम्पर्क एवं प्रकाशन विभाग राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न निविदा का प्रकाशन निम्नानुसार विक्रय लिखि से समुचित समय पूर्व कम से कम स्पेस में नियमानुसार राज्य सरकार की प्रकाशन नीति के अनुरूप एक क्षेत्रीय दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने की व्यवस्था करें।
2. जिला कलक्टर कार्यालय नोटिस बोर्ड, बीकानेर।
3. मुख्य लेखाधिकारी बीकानेर नगर निगम।
4. ओसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि निविदा को नगर निगम की वेबसाइट पर प्रकाशन करावे।
5. नोटिस बोर्ड बीकानेर नगर निगम।

आयुक्त

नगर निगम बीकानेर



बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फ़ैक्स :- 2226906, फ़ोन :- 0151-2226902, 0151-2226905

E-mail:- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site www.bikanernmc.org

क्रमांक/स्व./2021/ 5575-5579

05 जुलाई, 2021

ई-टेंडरिंग निविदा सूचना सं. 04 (2021-22)

बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में बरसात के मौसम में नालों की सफाई हेतु एक पोक्लेन मशीन (Two Ten or Above capacity) (9 मीटर बूम की) मय चालक, ईंधन सहित प्रति घण्टा पूर्ति अनुबंध पर कार्यदिश जारी होने की दिनांक से एक माह के लिए उपलब्ध कराये जाने हैं। निविदा की शर्तें निगम की वेबसाइट www.bikanernmc.org एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखी जा सकती हैं। निविदाएं वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड एवं अपलोड हेतु उपलब्ध हैं।

कार्य की अनुमानित लागत - 10:00:000/-

निविदा प्रपत्र शुल्क - 1000/- रुपये (ऑनलाईन)

ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क - 500/- रुपये (ऑनलाईन)

निविदा डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक - 08.07.2021

शाम 03:00 बजे तक

निविदा दर अपलोड करने की अंतिम दिनांक - 08.07.2021

शाम 06:00 बजे तक

तकनीकी बिड खोलने की दिनांक - 09.07.2021

को 11:00 बजे।

तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जावेगी।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर
05 जुलाई, 2021

क्रमांक/स्व./2021/ 5575-5579

प्रतिलिपि :-

- माननीय महापौर महोदय, बीकानेर नगर निगम।
- श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बीकानेर।
- मुख्य लेखाधिकारी बीकानेर नगर निगम।
- औसवाल डाटा, बीकानेर नगर निगम को भेजकर लेख है कि निविदा को नगर निगम की वेबसाइट पर प्रकाशन करावे।
- नोटिस बोर्ड बीकानेर नगर निगम।

आयुक्त
नगर निगम बीकानेर



बीकानेर नगर निगम

बीकानेर नगरीय क्षेत्र में बरसात के मौसम में नालों की सफाई हेतु मय चालक, ईंधन सहित आवश्यकतानुसार अनुबंध पर उपलब्ध करवाने के कार्य हेतु ई-टेंडरिंग निविदा सूचना सं. 03 (2021-22) शर्तें

1. बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में बरसात के मौसम में नालों की सफाई हेतु एक पोकलेन मशीन (Two Ton or Above capacity) (9 मीटर गूद की) मय चालक, ईंधन सहित प्रतिदोषतापूर्ति एक माह के लिए आवश्यकतानुसार अनुबंध पर उपलब्ध करवाने होंगे तथा आवश्यकतानुसार मशीनों की संख्या में वृद्धि व कमी की जा सकती है।
2. पोकलेन मशीन के सीमा/वाहन चालक लाइसेंस एवं संबंधित दस्तावेजों की सत्यापित प्रतिलिपि कार्यादेश से पूर्व प्रस्तुत करानी अनिवार्य होगी अन्यथा कार्यादेश नहीं दिया जायेगा।
3. निविदा प्रक्रिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रों को वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदकों को निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में प्रस्तुत करना होगा। निविदा को वेबसाइट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करानी होगी। इस निविदा सूचना एवं निविदा की शर्तों को विभाग की वेबसाइट www.bikanermc.org एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है। ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क 1000/- एवं निविदा शुल्क 1000/- ऑनलाईन ही निगम कोष में जमा करवाना अनिवार्य होगा।

1	निविदा शुल्क एवं ई-निविदा प्रक्रिया शुल्क को ऑनलाईन जमा रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा।
2	फार्म का कोई भी रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नहीं होने तथा ब्लैक लिस्ट नहीं होने का शपथ-पत्र 50/- रुपये के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
3	सर्जचरी भाविदा निधि अधिनियम, 1952 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि
4	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि
5	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
6	आय कर (इन नम्बर) पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
7	राजस्थान दुग्धन एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1946 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत द्वारा जारी पंजीयन की सत्यापित प्रतिलिपि।
8	50/- रुपये के नॉन-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर विडेंड सिग्नेचरिटी घोषणा पत्र। (सलग्न प्रारूप)

सामान्य शर्तें:-

4. इस निविदा सूचना एवं निविदा की शर्तों को विभाग की वेबसाइट www.bikanermc.org एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर भी देखा जा सकता है।
5. निविदाएं एंगलेने की तिथि को किसी कारणवश यदि सम्पूर्ण निविदाएं नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
6. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार आयुक्त नगर निगम बीकानेर को रहेंगे।
7. निविदादाता द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति नहीं किये जाने पर प्रति पोकलेन मशीन 2000/- प्रतिदिन के हिसाब से पेनेल्टी लगायी जायेगी, जिसकी वसूली संवेदक के प्रस्तुत बिल से की जायेगी।
8. स्वच्छता निरीक्षक, स्वास्थ्य अधिकारी एवं उपस्थित द्वारा विलों को सत्यापन पश्चात् भुगतान किया जायेगा।
9. निविदा दाता द्वारा स्वच्छता निरीक्षक/स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्य करना होगा। विशेष परिस्थितियों में आवश्यकता पड़ने पर दिन-रात में 24 घंटे निगम कर्मों भी कार्य हेतु बुलाने पर निविदा दाता को पोकलेन मशीन मय चालक, ईंधन सहित उपलब्ध करवायी जाकर ब्यवस्था करनी अनिवार्य होगी। यदि आपदा प्राकृतिक घटना घटित होने पर अतिविशेष व्यक्तियों के आगमन व इलाका पर एवं अतिआवश्यक परिस्थितियों पर इन शर्तों के अन्तर्गत 24 घण्टे कार्य करना होगा। निर्धारित प्रपत्र में स्वच्छता निरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण करने के पश्चात् स्वीकृत दर पर भुगतान देय होगा। निर्धारित समय से ज्यादा किया गया कार्य स्वच्छता निरीक्षक द्वारा प्रमाणित करने पर आनुयायिक रूप से भुगतान देय होगा।
10. सफल निविदादाता को निर्धारित शुल्क जमा करवाकर निगम कार्यालय से प्रति मशीन अलग-अलग लॉग बुक क्रय करनी होगी, प्रतिदिन किये गये कार्य का संबंधित लॉग बुक में अंकन एवं प्रमाणिकरण करवाना होगा।
11. पोकलेन मशीन मय चालक एवं मजदूरों पर होने वाले किसी भी प्रकार के व्यय जैसे पी.ओ.एस, टूट-फूट गरममा, चालक के वेतन भत्ते व अन्य सभी प्रकार के खर्चों की जिम्मेवारी निविदादाता को वहन करनी होगी।
12. यदि सफल निविदा दाता पोकलेन मशीन मय चालक ईंधन सहित पारंग उपलब्ध कराने में असफल होता है तो निगम निविदा दाता के बकाया बिलों एवं सफल निविदा दाता को अन्य संपत्ति से धरुल की जा सकती है। इसके अतिरिक्त निविदा दाता की धरोहर राशि भी जब्त की जायेगी।

13. निविदादाता द्वारा उपलब्ध करवाये गये पोकलोन मशीन मय चालक की मौके पर कार्य करते हुए या चलायमान स्थिति में किसी भी प्रकार की खटना घटित होने पर निविदा दाता वैधानिक रूप से उत्तरदायी होगा। निविदा दाता पर श्रम शानून के सही नियम लागू होंगे।
14. निविदा दाता को दरे स्वीकृत की सूचना के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निगम के साथ अनुबंध पत्र निष्पादित करना होगा। जिसमें निविदा शर्तों का उल्लेख होगा। अनुबंध-पत्र निश्चयानुसार संवेदक द्वारा क्रय कर भोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करना होगा। अनुबंध नहीं होने की दशा में ठेका निरस्त किया जा सकेगा एवं फर्म पर निश्चयानुसार कार्यवाही की जायेगी।
15. इस निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का एकधिकार (Absolute Right) निगम में निहित है। जिसका कारण बताने को निगम बाध्य नहीं है।
16. कार्यदेश प्राप्ति होने के तीन दिन में निविदा दाता को पोकलोन मशीन मय चालक ईवैन सहित उपलब्ध करवाने होंगे।
17. सफल निविदादाता से कार्यदेश जारी करने से पूर्व निविदा की राशि का 2.5 प्रतिशत कार्य सम्यादन प्रतिभूति (बरोडर राशि) जमा करनी होगी। सफल निविदादाता द्वारा कार्य सम्पानन प्रतिभूति एवं अनुबंध सम्यादित करने पर ही कार्यदेश जारी किया जायेगा।
18. सफल निविदादाता को राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों/आदेशों एवं होस कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन करना होगा। राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सभी जरूरी जीएसटी आदि संवेदक को चुकाने होंगे।
19. निविदा की अवधि एक माह हेतु या कार्यदेश जारी होने की दिनांक से एक माह के लिए मान्य होगी। जिसे निविदा अवधि समाप्त होने पर 1 माह हेतु या विशेष परिस्थितियों में यह अवधि आगामी निविदा सम्पन्न नहीं होने तक इसी दर पर बढ़ाई जा सकेगी। इस संबंध में निगम को पूर्ण अधिकार होगा। इसके लिए संवेदक बाध्य होगा।
20. निविदा दाता को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एवं अन्य अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
21. भुगतान लॉग बुक के आधार पर दिये गये कार्य अनुसार किया जायेगा।
22. कार्य का निरीक्षण किसी भी समय निगम के महापौर/आयुक्त/उपायुक्त/लेखाधिकारी/स्वास्थ्य अधिकारी/मुख्य स्वच्छता निरीक्षक/सर्विल निरीक्षक द्वारा किया जा सकेगा।
23. निविदा दाता द्वारा किसी भी निविदा शर्तों/अनुबंध की अवहेलना करने पर निगम द्वारा ठेका निरस्त कर जमा बरोडर राशि जब्त की जा सकती है।
24. निविदा में किसी भी तरह का विवाद होने पर अंतिम निर्णय नगर निगम का मान्य होगा।
25. ईपीएफ एवं ईएसआई जमा करवाने की समस्त जिम्मेवारी सफल निविदादाता की ही होगी। संबंधित विभाग में किसी भी तरह का बकाया होगा तो उत्तरी भी समस्त जिम्मेवारी सफल निविदादाता की ही होगी। इसके लिए निगम किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा।
26. निविदा में राजस्थान लोक उपापन में प्रारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं वित्त विभाग के परिपत्र सं. 1/2018 दिनांक 30.04.2018 लागू होंगे।
27. निविदा एवं निविदा शर्तों के संबंध में किसी भी प्रकार से विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दीक्षानेर होगा।

स्वास्थ्य अधिकारी
बीकानेर नगर
निगम

मुख्य लेखाधिकारी
बीकानेर नगर निगम

उपनिवेश अभियन्ता
आन्तरिक
बीकानेर नगर निगम

उपविधि परामर्शी
बीकानेर नगर निगम

उपायुक्त
बीकानेर नगर
निगम



बीकानेर नगर निगम

तकनीकी बिड (प्रथम भाग)

1. ई-निविदा सूचना संख्या - 04/2021-22
 2. कार्य का नाम :- बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में बरसात के मौसम में नालों की सफाई हेतु एक पोकलेन मशीन (Two Ten or Above capacity) (9 मीटर दूरी की) भय चालक, ईंधन सहित प्रति घण्टा आपूर्ति कार्य।
 3. फर्म का नाम :-
 6. डाउनलोड करने की अंतिम तिथि : 08.07.2021 11:00 PM तक
 7. अपलोड करने की अंतिम तिथि : 08.07.2021 6:00 PM तक
 8. तकनीकी बीड खोलने की दिनांक : 09.07.2021 11:00 AM
- (<http://eproc.rajasthan.gov.in>)

बीकानेर नगर निगम

1	निविदा भुलक एवं ई-निविदा प्रक्रिया भुलक की ऑनलाइन जमा रसीद अपलोड करना अनिवार्य होगा।
2	फर्म का कोई भी रिश्तेदार नगर निगम बीकानेर में कार्यरत नहीं होने तथा ब्लैक लिस्ट नहीं होने का शपथ-पत्र/अण्डर टेकिंग 50/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।
3	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
4	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
5	वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
6	आय कर (पैन नम्बर) पंजीयन प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
7	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत द्वारा जारी पंजीयन की सत्यापित प्रतिलिपि।
8	50/- रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर बिड सिक्यूरिटी घोशणा पत्र। (सलग्न प्रालम्ब)

उपरोक्त दस्तावेजों की प्रतियां स्कैन करके अपलोड करने एवं कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील



बीकानेर नगर निगम

वित्तिय बिड (द्वितीय भाग)

1. ई-निविदा सूचना संख्या - 04/2021-22.
2. कार्य का नाम :- बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में बरसात के मौसम में नालों की सफाई हेतु एक पोकलेन मशीन (Two Ten or Above capacity) (9 मीटर वूम की) मय चालक, ईंधन सहित प्रति घण्टा आपूर्ति कार्य।
फर्म का नाम :-

अनुमोदित

बीकानेर नगर निगम

दर प्रस्ताव

बीकानेर नगर निगम क्षेत्र में बरसात के मौसम में नालों की सफाई हेतु एक पोकलेन मशीन (Two Ten or Above capacity) (9 मीटर वूम की) मय चालक, ईंधन सहित प्रति घण्टा आपूर्ति कार्य।	प्रति घण्टा प्रति पोकलेन मशीन निविदा शर्तों के अनुसार समस्त करों सहित रुपये शब्दों में
--	--

चेक दी गई दर पर कार्य तकनीकी बिड में संलग्न शर्तों अनुसार कार्य करने तथा समस्त करों एवं ईपीएफ/ईएसआई भरने आदि के लिए सहमत हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर गद्य सील

Form of Bid-Securing Declaration

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration. We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

- (a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
- (b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
- (c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
- (d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
- (e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

- (i) we are not the successful Bidder;
- (ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
- (iii) thirty days after the expiration of our Bid.
- (iv) the cancellation of the procurement process; or
- (v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :-----

Name :-----

In the capacity of :-----

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of

Corporate Seal -----

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

शपथग्रहिता